



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 44 पटना, बुधवार, 27 कार्तिक, 1931 (श0)
18 नवम्बर, 2009 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-8
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	9-9
पूरक	---
पूरक-क	11-11

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

21 अक्टूबर 2009

सं० 1/सह.राज.स्था.(अंके.)-04/2009-4658—बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा (अंकेक्षण प्रभाग) वर्ग-2 (समूह-ख) के अन्तर्गत जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियों के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के साथ वेतनमान रु. 6500-200-10500 (औपबधिक पुनरीक्षित वेतनमान रु. 9300-34800) में तथा राज्य सरकार द्वारा उसपर समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियों के रूप में प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम तथा स्थायी पता	गृह जिला	पत्राचार का पता	संयुक्त मेधाक्रम	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापन पद का कार्यालय एवं स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, पिता—श्री गोपाल प्रसाद वर्मा, गायत्री नगर, पूरब सराय, मुंगेर-811201	मुंगेर	गायत्री नगर, पूरब सराय, मुंगेर-811201	31	01-01-1977	सामान्य	जिला अंके.पदा., स.स., औरंगाबाद
2	श्री राजेश कुमार, पिता—श्री राम लषण प्रसाद सिंह, ए-23 आस्था नगर, मीरगंज, पो.+जिला—बेगुसराय	बेगुसराय	ए-23 आस्था नगर, मीरगंज, पो.+जिला—बेगुसराय -851101	36	02-01-1977	सामान्य	जिला अंके.पदा., स. स., मुंगेर
3	श्री कुंदनलाल, पिता—श्री मुरारी मोहन सिंह, ग्रा.+पो.—राणा विगहा, थाना—बाढ़, जिला—पटना	पटना	द्वारा श्री पशुपतिनाथ (विभागाध्यक्ष) जन्तु विज्ञान विभाग, बी.एन.कॉलेज, अशोक राजपथ, पटना-800 005	45	31-07-1977	सामान्य	जिला अंके. पदा., स. स., पश्चिमी चम्पारण
4	श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता—श्री योगेन्द्र झा, मो.—लक्ष्मी सागर (गैस गोदाम के निकट), दरभंगा	दरभंगा	पिता—श्री योगेन्द्र झा, मो.—लक्ष्मी सागर (गैस गोदाम के निकट), दरभंगा	47	01-03-1975	सामान्य	जिला अंके.पदा., स.स., रोहतास

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम तथा स्थायी पता	गृह जिला	पत्राचार का पता	संयुक्त मेधाक्रम	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापन पद का कार्यालय एवं स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
5	श्री विजयानंद 'राजेश' पिता—श्री रामचन्द्र पासवान मो.—तेलिया पोखर, पो.—बेगुसराय, जिला—बेगुसराय— 851101	बेगुसराय	मो.—तेलिया पोखर, पो.—बेगुसराय, जिला—बेगुसराय— 851101	193	01-03-1977	अनु. जाति	जिला अंके.पदा, स. स., पूर्णियाँ
6	श्री घनश्याम रविदास, पिता—श्री कृष्ण रविदास, ग्राम—वरुणा, पो.—वरुणा, थाना—फतुहा, पटना	पटना	श्री घनश्याम रविदास, लेखा अनुभाग-2, कार्यालय—खान सुरक्षा महानिदेशालय, हीरापुर धनबाद, (झारखंड)—826001	194	16-01-1976	अनु. जाति	जिला अंके.पदा, स.स., दरभंगा

1. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अन्य प्रमाण—पत्रों की सम्पुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी तथा भुगतान की गयी राशि, प्रशिक्षण पर हुए व्यय के साथ इनके वसूलनीय होगी।

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि समान्यतः (2) दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रम के अनुसार होगा।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919, दिनांक 18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा—पत्र प्रभार ग्रहण के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. परीक्ष्यमान अवधि में नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के मार्ग दर्शन में अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे।

5. प्रत्येक नवनियुक्त अभ्यर्थी को उनके अभिप्रेमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भारत्यागी/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ से प्रभार ग्रहण करेंगे अन्यथा संबंधित भारत्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौंपेंगे।

6. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा नियमावली के नियम-37 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी नवनियुक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ प्रशिक्षण में रहेंगे और इसी दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से
(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

26 अक्टूबर 2009

सं.—01/रा.स्था.वि.स.से.पदा./68/07—4756—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभाग ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, स.स., झंझारपुर अंचल, झंझारपुर का प्रभार दिया जाता है।

यह आदेश तुरंत लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप—सचिव।

26 अक्टूबर 2009

सं० 1/रा.स्था.(2)प्रो.-11/2008 सह. 4760—विभागीय अधिसूचना संख्या 4390, दिनांक 8 अक्टूबर 2009 के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक सेवा) के निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम-4 में उल्लिखित तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान रु. 12,000—16,500 (अपुनरीक्षित) में दी गई तदर्थ प्रोन्नति को अधिसूचना निर्गम तिथि से नियमित किया जाता है :-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम एवं कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	तदर्थ प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री गंगानन्द मिश्र, 34/09	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया।	04-07-2008
2	श्री चक्रधर झा, 36/09	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	31-07-2008

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप—सचिव।

26 अक्टूबर 2009

सं० 1/रा.स्था.(2)प्रो.-05/2008—सह.-4762—श्री नित्यानंद दास (256), बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग), सम्प्रति प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा को बिहार राज्य सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 26 फरवरी 2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान रु. 12,000—16,500 में द्वितीय ए.सी.पी. लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन नियतिकरण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (ii) के प्रावधानों के अधीन होगा और ए.सी.पी. नियमावली के नियम 8(3) के तहत वेतन नियतिकरण की तिथि वेतनवृद्धि की तिथि को चयन करने का विकल्प होगा।

3. इस ए.सी.पी. लाभ स्वीकृति में भविष्य में किसी कारणवश संशोधन किया जाता है तो इन्हें मान्य होगा और अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 35—571+30-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

23 अक्टूबर 2009

सं० 5/सह0/ फ. बी.-43/2009-4729—भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/15-1999 क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई 1999, एवं पत्रांक 13011/04/2004-क्रेडिट-II, दिनांक 11 अगस्त 2009 द्वारा परिचरित आदेश तथा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 14 सितम्बर 2009 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में रब्बी 2009-10 मौसम की निम्नांकित फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता है:-

- (क) गेहूँ-राज्य के 38 जिले के कुल 515 अंचल-इकाई अंचल
- (ख) चना- राज्य के 19 जिले-इकाई जिला
- (ग) मसूर- राज्य के 33 जिले-इकाई जिला
- (घ) रब्बी-मक्का-राज्य के 24 जिले-इकाई जिला
- (ङ) अरहर- राज्य के 25 जिले-इकाई जिला
- (च) राई एवं सरसों-राज्य के सभी जिले-इकाई जिला
- (छ) आलू- राज्य के 18 जिले -इकाई जिला
- (ज) प्याज- राज्य के 18 जिले-इकाई जिला
- (झ) बैंगन-राज्य के 14 जिले-इकाई जिला
- (ञ) टमाटर-राज्य के 11 जिले-इकाई जिला
- (ट) ईख (2010-11) - राज्य के 15 जिले-इकाई जिला।

अनुलग्नक में जिले/अंचलों का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।

2. इस योजना में वाणिज्य बैंक/ ग्रामीण बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के साथ साथ गैर-ऋणी कृषकों को भी बीमा हेतु आच्छादित किया जायेगा, किन्तु गैर-ऋणी कृषकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। वैसे ऋणी कृषक जो ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराना चाहेंगे वैसी स्थिति में उक्त अधिक राशि हेतु वे गैर-ऋणी कृषक समझे जायेंगे।

3. बीमित राशि :- बीमित राशि के तीन विकल्प है:-

- (क) ऋण राशि का पूर्णतः बीमा कराना अनिवार्य होगा।
- (ख) कृषक निर्धारित ऊपज के मूल्य तक भी बीमा करा सकते हैं।
- (ग) यदि कृषक चाहें तो औसत ऊपज के 150 प्रतिशत तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।

4. प्रीमियम दर का निर्धारण :- इस योजना में प्रीमियम की दो दरें निर्धारित की गई हैं (क) निश्चित दर, (ख) वास्तविक दर। आलू, प्याज, ईख, बैंगन एवं टमाटर फसल हेतु केवल वास्तविक दर ही लागू होगी। एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आधार पर नीचे अंकित तालिका में प्रीमियम दर एवं बीमित राशि को दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	फसल का नाम	प्रीमियर दर		क्षतिपूर्ति का स्तर (प्रतिशत में)	बीमित राशि प्रति हेक्टर	
		निश्चित दर (प्रतिशत में)	वास्तविक दर (प्रतिशत में)		निर्धारित ऊपज दर के मूल्य तक	औसत ऊपज दर के 150 प्रतिशत मूल्य तक
1	2	3	4	5	6	7
1	गेंहूँ	1.50	6.05	80	17,910.00	33,590.00
2	चना	2.00	3.00	80	11,670.00	21,880.00
3	मसूर	2.00	5.95	80	10,630.00	19,930.00
4	रब्बी-मक्का	2.00	5.35	80	22,420.00	42,030.00
5	अरहर	2.00	6.05	80	21,160.00	39,680.00
6	राई एवं सरसों	2.00	6.65	80	13,350.00	25,020.00
7	आलू	लागू नहीं	6.55	80	73,390.00	1,37,610.00
8	प्याज	लागू नहीं	7.40	60	43,570.00	1,08,920.00
9	ईख	लागू नहीं	1.60	80	26,400.00	49,510.00
10	बैंगन	लागू नहीं	7.30	80	50,420.00	94,530.00
11	टमाटर	लागू नहीं	8.65	60	65,570.00	1,63,940.00

लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा प्रीमियम की राशि में 10 प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा अनुमान्य होगा। शेष राशि कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।

5. ऋण नीति के अनुसार बैंकों से ली गयी संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि पर प्रीमियम की निश्चित दर लागू होगी। गैर-ऋणी कृषकों के मामले में निर्धारित ऊपज दर के मूल्य तक प्रीमियम की निश्चित दर एवं औसत ऊपज दर के 150 प्रतिशत तक मूल्य की बीमित राशि पर वास्तविक दर लागू होगी।

6. गैर-ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :-

- क. कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया हो।
- ख. बीमा के इच्छुक कृषक का बैंक में खाता रहना अनिवार्य है।
- ग. लघु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्रता दी जाय।
- घ. किसान के प्रस्ताव पत्र के साथ भूमि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गई हो।

7. सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहवार/फसलवार/इकाईवार (अंचलवार-जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्र एवं घोषणा-पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. ग्रैंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किये जायेंगे। संबंधित सभी बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा-पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके, जो बैंक एतद् संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा-पत्र आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी।

ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों के प्रीमियम की राशि का अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट/ चेक/ पे-आडर AXIS Bank Patna-A/C No.142010200001441 Agriculture Insurance Company of India Ltd. के पक्ष में होना चाहिए।

8. ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा-पत्र जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है:-

क्रमांक	ऋण वितरण की अवधि	घोषणा-पत्र जमा करने की तिथि
क	अक्टूबर, 09 माह में प्रदाय ऋण	30 नवंबर 2009 तक ।
ख	नवंबर, 09 माह में प्रदाय ऋण	31 दिसंबर 2009 तक ।
ग	दिसंबर, 09 माह में प्रदाय ऋण	31 जनवरी 2010 तक ।
घ	जनवरी, 10 माह में प्रदाय ऋण	28 फरवरी 2010 तक ।
ङ	फरवरी, 10 माह में प्रदाय ऋण	31 मार्च 2010 तक ।
च	मार्च, 10 माह में प्रदाय ऋण	30 अप्रिल 2010 तक ।
छ	अंतिम तिथि	31 मई 2010 तक ।

रबी फसलों हेतु ऋण वितरण करने की अवधि 1 अक्टूबर, 2009 से अगले वर्ष 31 मार्च, 2010 तक तथा घोषणा-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2010 तक निर्धारित की जाती है।

9. गैर-ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2009 होगी। गैर-ऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2009 तक अपने निकटतम वाणिज्य बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेंगे। बैंकों से इससे संबंधित घोषणा पत्र दिनांक 31 जनवरी 2010 तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. पटना को उपलब्ध हो जाना चाहिये।

10. इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये जायेंगे।

11. रब्बी 2009-10 मौसम की बीमित फसलों के कटनी प्रयोग के आँकड़े 31 जुलाई 2010 तक तथा ईख फसल 2010-11 के आँकड़े 31 जुलाई 2011 तक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा उक्त आँकड़े के आधार पर ही फसल क्षति का आकलन किया जायेगा। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टीमेशन सर्वे के आधार पर किया जाना है, न कि आनावारी/पैसावारी के आधार पर।

12. बैंकिंग व्यवसाय करने वाले पैक्स को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने तथा योग्य पैक्सों के चयन के निमित्त सहकारिता विभाग द्वारा अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।

13. **बैंक सेवा शुल्क**— ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों से प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि का 2.5 प्रतिशत सेवाशुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 35—571+30-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

सं० 49—मैं कहकशाँ बानो, पिता मीर अब्दुल अहद पति एम० हारुण रशीद शपथ-पत्र सं० 1184, दिनांक 7 मई 2007 विवाह के बाद से मैं कहकशाँ बानो के स्थान पर कहकशाँ रशीद के नाम से जानी जा रही हूँ।

कहकशाँ बानो
पति—एम० हारुण रशीद
फ्लेट न० टी० आर—1
सपना अपार्टमेन्ट,
नयाटोला, पटना—4

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर 2009

सं० 1/सह.नि.को.(गो.चा.) 29/09-4950—श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्र, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंह, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., समस्तीपुर के वर्ष 2008-09 की गोपनीय अभ्युक्ति पर समीक्षी पदाधिकारी के रूप में मंतव्य अभिलेखित किया गया है। जबकि उक्त अवधि में श्री मिश्र दरभंगा प्रमंडल में पदस्थापित ही नहीं थे।

प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के न तो प्रतिवेदक पदाधिकारी हैं और न ही समीक्षी पदाधिकारी। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त अभ्युक्ति अभिलेखन अनाधिकृत एवं अनियमित है। इस संबंध में इनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण श्री मिश्र को वर्ष 2009-10 के लिए चेतावनी की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त/चारित्री पुस्तिका में की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>